

Vipul Limited

Vipul TechSquare Golf-Course Road, Sector-43

Gurgaon - 122 009 Tel: -91-124-406 5500 Fax: 91-124-406 1000

E-mail : info@vipulgroup.in www.vipulgroup.in

Ref. No. VIPUL/SEC/FY2022-23/3/52

February 16, 2023

The Secretary
BSE Limited, (Equity Scrip Code: 511726)
Corporate Relationship Department,
At: 1ST Floor, New Trading Ring, Rotunda
Building, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal
Street, Fort, Mumbai-400001

The Manager (Listing)
National Stock Exchange of India Limited,
(Equity Scrip Code: VIPULLTD)
Exchange Plaza, BandraKurla Complex,
Bandra, Mumbai-400051

Sub: Newspaper clippings regarding Unaudited Financial Results for the 3RD Quarter and Nine Months ended on December 31, 2022 (Standalone and Consolidated)

Dear Sir(s),

Pursuant to Regulation 30 & 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are forwarding herewith copies of Newspaper clippings regarding Unaudited Financial Results for the 3RD Quarter and Nine Months ended on December 31, 2022 (Standalone and Consolidated) published on Wednesday, February 15, 2023 in "Business Standard", in English language and "Business Standard", in Hindi language.

You are requested to take the above information on record and bring the same to the notice of all concerned.

Thanking you

Yours faithfully

For Vipul Limited

(Sunil Kumar) Company Secretary

A-38859

Encl: As above

HPL ELECTRIC & POWER LIMITED

CIN: L74899DL1992PLC048945 Regd. Office: 1/20, Asaf Ali Road, New Delhi 110 002 **Ph.:** +91-11-23234411, **Fax:** +91-11-23232639 E-mail: hpl@hplindia.com, Website: www.hplindia.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER

	AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022 (Rs. in Lakhs)								
Sr.	B (1)	G	uarter ende	ed	Nine Mor	ths Ended	Year ended		
No.	Particulars			31.12.2021			31.03.2022		
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited		
1	Total Income from Operations	30,158.51	30,227.73	28,004.34	89,945.57	68,881.89	1,01,395.47		
2	Net Profit/ (Loss) for the Period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	980.72	970.22	925.12	2,920.27	(332.13)	1,393.48		
3	Net Profit/ (Loss) for the Period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	980.72	970.22	925.12	2,920.27	(332.13)	1,393.48		
4	Net Profit/ (Loss) for the Period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	638.37	627.79	930.39	1,898.13	(571.86)	780.46		
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising profit for the period (after tax) and Other comprehensive income (after tax))	620.31	612.83	943.67	1,848.73	(533.94)	720.14		
6	Equity share capital	6,430.05	6,430.05	6,430.05	6,430.05	6,430.05	6,430.05		
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year 70,01									
8	Earnings Per Share (face value of Rs.10 each)								
	1. Basic (Rs.)	0.99	0.97	1.44	2.94	(0.89)	1.21		
	2. Diluted (Rs.)	0.99	0.97	1.44	2.94	(0.89)	1.21		
KEY STANDALONE FINANCIAL INFORMATION FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022 (Rs. in Lakhs)									

3 Profit after tax Notes:-

Place: Noida

Date: 14.02.2023

2 Profit before tax

1 Total Income from Operations

No

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Director's at their respective
meetings held on February 14, 2023. The statutory auditors of the Company have conducted limited review of these
financial results, pursuant to Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

560.02

Quarter ended

585.90

2) The above is an extract of the detailed format of the financial results for the quarter and nine months ended 31st December, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and nine months ended 31st December, 2022 are available on the websites of the Stock Exchanges (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website www.hplindia.com

3) Management has changed its segmental reporting by aggregating/restructuring on the basis of similar economic, market and business characteristics. Thereby the two new reportable segments identified are Consumer & industrial by aggregating wire & cables, lighting, luminaries and switchgear business in to one segment and aggregating of Metering, systems and projects business in to another segment as Metering & Systems. Changes in reportable segment are in accordance with Ind AS 108, hence previous year figures are re-instated to make it comparable

Previous quarter/year ended figures have been regrouped/ restated wherever necessary.

For and on behalf of the Board of HPL Electric & Power Limited Rishi Seth Managing Director

Nine Months Ended Year ended

(552.53)

715.02 2,622.21 (337.15) 1,086.62

31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.03.2022

28,684.40 | 29,128.22 | 27,325.57 | 86,267.10 | 68,035.40 | 1,00,427.98

727.21 1,706.03

Inaudited Unaudited Unaudited Unaudited Unaudited

V Vipul VIPUL LIMITED

alone Unaudited Financial Results for the 3rd quarter & Nine Months ended December 31, 2022

Regd. Office: Unit No. 201, C-50, Malviya Nagar, Delhi-110017 Corp. Office: Vipul TechSquare, Golf Course Road, Sector-43, Gurgaon-122009 CIN No.: L65923DL2002PLC167607, Phone No.: 0124-4065500, Website: www.vipulgroup.in

	(< in Lakins except per snare Earnings per snare)										
_		FOR THE QUARTER ENDED FOR THE NINE MONTHS ENDED FOR TH									
i. Io	Particulars	31.12.2022 Unaudited	30.09.2022 Unaudited	31.12.2021 Unaudited	31.12.2022 Unaudited	31.12.2021 Unaudited	YEAR ENDED 31.03.2022 Audited				
	Total Income from operations	759.20	1,444.65	7,606.46	3,635.42	10,818.34	13,158.05				
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after	(1,221.19)	(907.87)	(48.71)	(3,453.65)	(2,837.48)	(3,491.51)				
,	Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after	(1,221.19)	(907.87)	(48.71)	(12,886.80)	(2,837.48)	(3,491.51)				
5	Exceptional and/or Extraordinary items) Equity Share Capital	(1,221.19) 1,199.84	(907.87) 1,199.84	(48.71) 1,199.84	(12,886.80) 1,199.84	(2,131.94) 1,199.84	(2,785.97) 1,199.84				
7	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax) Earnings per share (of ₹ 1/e each) (for continuing and discounted operations)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(907.87)	(48.71)	(12,886.80)	(2,131.94)	(2,736.86)				
	- Basic - Diluted	(1.02) (1.02)	(0.76) (0.76)	(0.04) (0.04)	(10.74) (10.74)	(1.78) (1.78)	(2.32) (2.32)				
3	tract of Consolidated Unaudited Fin	ancial Result	s for the 3rd	quarter & Ni	ne Months e	nded Decem	ber 31, 2022				
	Total Income from operations	860.89	4,865.36	7,828.23	7,304.72	11,611.39	14,776.19				
!	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after	(1,393.35)	2,750.64	(244.25)	(712.81)	(3,484.64)	(4,883.47)				
	Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after	(1,393.35)	2,750.64	(244.25)	(10,145.96)	(3,484.64)	(4,888.38)				
5	Exceptional and/or Extraordinary items) Equity Share Capital Total Comprehensive Income for the period	(1,391.97) 1,199.84	1,867.42 1,199.84	(190.11) 1,199.84	(11,041.34) 1,199.84	(2,779.15) 1,199.84	(4,182.65) 1,199.84				
,	(Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax) Earnings per share (of ₹ 1/- each) (for continuing and discounted operations)	(1,391.97)	1,867.42	(190.11)	(11,041.34)	(2,779.15)	(4,133.54)				
	- Basic - Diluted	(1.16) (1.16)	1.56 1.56	(0.16) (0.16)	(9.20) (9.20)	(2.32) (2.32)	(3.49) (3.49)				

NOTE:

Date: February 14, 2023

Place: Gurugram

The above are extracts of the detailed format of Standalone and Consolidated Un-Audited for the 3rd guarter and nine months ended December 31 2022, filed with BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd., under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosur Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"). The full format of the standalone and consolidated un-audited for the 3RD quarter and nine months ended December 31, 2022 is available on the websites of the stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and control and a con n the Company's website i.e. www.vipulgroup.in.

The above standalone and consolidated un-audited for the 3rd quarter and nine months ended December 31, 2022 is reviewed by the Audi Committee and on the recommendations have been approved by the Board of Directors at their respective meetings held on February 14, 2023. Further in accordance with the requirements of Regulation 33 of the Listing Regulations with the stock exchanges, the statutory auditor have carried out limited review for standalone and consolidated un-audited for the 3rd quarter and nine months ended December 31, 2022 and the limited revie report has been approved by the Board.

he above results have been prepared in accordance with recognitions and measurements principles laid down in Ind AS prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.

These results will be made available on the Company's website viz www.vipulgroup.in and websites of BSE Limited and National Stock Exchang of India Limited viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com

For and on behalf of the Boar **Vipul Limite**

Punit Beriwal Managing Director& Chief Executive Officer

Sr.

SPI TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED

(previously known as Lambda Content India Private Limited)

(IN: U93000PY2017PTC008168

Reg Office: R S No. 4/5 & 4/6, Gothi Industrial Estate, Kurumbapet Puducherry, Pondicherry PY-60500

Email: ezhil.arasan@straive.com, Telephone: 0413-229760

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR

THE QUARTER AND NINE MONTHS PERIOD ENDED DECEMBER 31, 2022

[Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4), of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

(INI in Millions

No		31.12.2022		31.03.2022
		(Unaudited)	(Unaudited)	
1.	Total Income from Operations	3174.50	2463.23	9818.32
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,			
	Exceptional and/or Extraordinary items)	830.21	81.23	453.76
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax			
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	830.21	81.23	453.76
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax			
	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	659.11	(41.20)	53.04
5.	Total Comprehensive Income for the period			
	[Comprising Profit/ (Loss) for the period			
	(after tax) and Other Comprehensive Income			
	(after tax)	590.29	(60.18)	(151.78)
6.	Paid up Equity Share Capital	1650.75	1650.75	1650.75
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as			
	per the balance sheet of the previous			
	accounting year	719.46	(1215.57)	(1243.83)
	Securities Premium Account	92.65	92.65	92.65
	Net worth	2370.21	435.18	406.92
	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	7757.26	8011.56	8011.56
	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-
	Debt Equity Ratio	3.27	18.41	19.69
13.	Earnings Per Share (of Rs. 100/- each)			
	(for continuing and discontinued operations)			
	(not annualised for quarter end)			
	1. Basic :	16.89	(1.06)	1.36
	2. Diluted :	16.89	(1.06)	1.36
14.	Capital Redemption Reserve	-		-
	Debenture Redemption Reserve	307.31		-
16.	Debt Service Coverage Ratio	2.42	1.29	0.86
17.	Interest Service Coverage Ratio	4.28	1.31	1.40

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stoci Exchanges (BSE) under Regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of the quarterly financial results are available on the website of the Stock Exchange, BSE (www.bseindia.com)

and the listed entity (www.spitechindia.com). For the items referred in Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirement

(INR in Millions
| Quarter Ended Quarter Ended Year Ended

For SPI Technologies India Private Limited (previously known as Lambda Content India Private Limited

Ezhil Arasan Kuppusam

KRYPTON INDUSTRIES LTD. CIN: L25199WB1990PLC048791

Redg. Office: Plot No.31 & 32, Falta Special Economic Zone, Sector - 1, 24 Parganas (S) Pin - 743-504 Head Office: 410, Vardaan Building, 25A, Camac Street, Kolkata - 700 016, Email id: krypton@kryptongroup.com

	EXTRACTS OF THE UNAUDITED FINANCIAL F	RESULTS FO	R THE QUA	ARTER AND	NINE MC	NTHS END	ED 31.12.2	022	₹ in Lakhs
			STANDA	ALONE		CONSOLIDATED			
	PARTICULARS	Quarter Ended 31.12.2022	Nine Months Ended 31.12.2022	Quarter Ended 31.12.2021	Year Ended 31.03.2022	Quarter Ended 31.12.2022	Nine Months Ended 31.12.2022	Quarter Ended 31.12.2021	Year Ended 31.03.2022
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	727.86	2,252.95	1,109.52	4,058.25	768.50	2,319.28	1,175.16	4,360.44
2	Net Profit /(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items #)	37.83	85.32	50.40	503.46	33.84	71.11	46.73	482.11
3	Net Profit /(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and Extraordinary items #)	37.83	85.32	50.34	140.82	33.84	71.11	46.73	119.47
4	Net Profit /(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and Extraordinary items #)	33.83	89.32	46.34	89.86	29.84	75.11	38.93	68.51
5	Total Comphrensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comphrensive Income								
	(after Tax)]	33.83	89.32	46.34	89.74	30.02	75.20	41.43	72.20
6	Equity Share Capital	1,469.71	1,469.71	1,469.71	1,469.71	1,469.71	1,469.71	1,469.71	1,469.71
7	Reserves excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet on previous accounting year	-	-	-	1,410.22	-	-	-	1,518.88
8	Earnings per Share (for continuing and discontinued operations) (Face Value of ₹10/- each) Basic & Diluted (*Not Annualised)	0.23*	0.61*	0.32*	0.61	0.20*	0.51*	0.27*	0.48*

(1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the quarterly/ Annual Financial Results are available on Stock Exchange Websites (www.bseindia.com) and on the Company's Website (www.kryptongroup.com).

Place: Kolkata Date: 13.02.2023 for & on behalf of the Board (JAY SINGH BARDIA) Managing Directo DIN: 00467932

Particulars

NATIONAL PEROXIDE LIMITED

Date: 14.02.2023 Place: Pondicherry

Registered office: Neville House, J.N.Heredia Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400001 CIN: L24299MH1954PLC009254

Standalone

Tel No: (022) 66620000 ● Website: www.naperol.com ● Email: secretarial@naperol.com EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE AND CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022

Consolidated

N	lo.	Quarter	Nine Months	Quarter	Quarter	Nine Months	Quarter
		Ended	Ended	Ended	Ended	Ended	Ended
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited
F	Total Revenue from Operations	11,511.50	28,757.10	7,973.67	11,515.12	28,814.65	7,974.24
12	Net Profit for the period (before Tax,	2,334.60	2,616.12	1,214.94	2,334.17	2,662.66	1,215.30
	Exceptional and Extraordinary Items)						
13	Net Profit for the period before Tax	2,334.60	4,206.91	1,214.94	2,334.17	4,253.45	1,215.30
	(after Exceptional and Extraordinary Items)						
4	Net Profit for the period after Tax	1,739.57	3,155.35	883.34	1,739.52	3,190.23	883.61
	(after Exceptional and Extraordinary Items)						
1	Total comprehensive moderns for any points	1,315.15	4,012.92	333.48	857.38	5,949.64	(1,235.56)
	[Comprising Profit for the period (after tax)						
Ι.	and Other Comprehensive Income (after tax)]						
16	i and op Equity criais suprian	574.70	574.70	574.70	574.70	574.70	574.70
	(face value of ₹10/- each)						
7							
	(before and after extraordinary items)						
	(face value of ₹ 10/- each) (Not annualised)						
	(a) Basic	30.27	54.90	15.37	30.27	55.51	15.38
	(b) Diluted	30.27	54.90	15.37	30.27	55.51	15.38

Place: Mumbai

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine months ended December 31, 2022 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of these results are available on the Stock Exchange's website (www.bseindia.com) and the Company's website (www.naperol.com).

The said results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meetings held on February 13, 2023 and February 14, 2023 respectively.

For National Peroxide Limited

(Rajiv Arora) **Chief Executive Officer and Director** Date : February 14, 2023 DIN: 08730235



A2Z INFRA ENGINEERING LTD.

Registered Office: O-116, 1st Floor, DLF Shopping Mall, Arjun Marg, DLF Phase 1, Gurugram-122002, (Haryana) Corporate Office: Plot No. B-38, Institutional Area, Sector 32, Gurugram-122001 (Haryana) E-mail: investor.relations@a2zemail.com, Website: www.a2zgroup.co.in, Tel.: 0124-4517600,

and Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31



	Extract of Standalone at	na Conso	ildated U	naudited	rmanciai	Results 1	or the qua	arter and	nine mon	tns ende	a Decemb	er 31, 202	
												(Amount i	n Rs Lakhs)
				Stand	lalone			Consolidated					
S.		(Quarter Ende	d	Nine months	period ended	Year ended	Q	uarter Ended		Nine months	period ended	Year Ended
No	Particulars	December 31, 2022	September 30, 2022	December 31, 2021	December 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2022	December 31, 2022	September 30, 2022	December 31, 2021	December 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2022
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	1,489.17	2,066.01	2,983.21	5,478.53	9,558.37	13,601.00	8,354.82	9,653.58	8,068.67	25,873.19	25,448.80	35,332.50
2	(Loss)/Profit before exceptional items and tax	(373.94)	(479.62)	(449.24)	(1,034.52)	(1,410.76)	(17,289.08)	(453.94)	(421.64)	(441.86)	(1,151.19)	(1,263.07)	(18,196.52)
3	(Loss)/Profit before tax	(98.74)	(479.62)	(880.94)	(759.32)	(17,093.27)	(17,217.22)	(7,070.29)	(421.64)	24.25	(7,767.54)	(16,047.77)	(17,669.46)
4	(Loss)/Profit for the period/year	(98.74)	(479.62)	(885.83)	(759.32)	(17,099.78)	(17,223.73)	(5,435.36)	(526.31)	(155.47)	(6,237.28)	(16,458.55)	(17,980.43)
5	Total Comprehensive Income for the period/year	(98.74)	(479.62)	(885.83)	(759.32)	(17,081.82)	(17,231.50)	(5,435.36)	(526.31)	(155.47)	(6,237.28)	(16,440.59)	(17,867.14)
6	Equity share capital (Paid-up) (Face value of the share - Rs 10/- each)	17,611.99	17,611.99	17,611.99	17,611.99	17,611.99	17,611.99	17,611.99	17,611.99	17,611.99	17,611.99	17,611.99	17,611.99
7	(Loss)/ Earnings Per Share (of Rs. 10 each)												
	(a) Basic earnings per share	(0.05)	(0.28)	(0.50)	(0.43)	(9.71)	(9.78)	(2.90)	(0.31)	(0.10)	(3.37)	(9.40)	(10.22)
	(b) Diluted earnings per share	(0.05)	(0.28)	(0.50)	(0.43)	(9.71)	(9.78)	(2.90)	(0.31)	(0.10)	(3.37)	(9.40)	(10.22)

Notes:

The above Standalone and Consolidated financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2022 have been reviewed by the Audit Committee and on their recommendation have been approved by the Board of Directors at its meeting held on February 14, 2023. Basic and Diluted Earnings Per Share is not annualized for the quarters ended December 31, 2022, September 30, 2022 and December 31, 2021 and nine months ended December 31, 2022 and

The above is an extract of detailed format of financial results (Standalone and Consolidated) filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full format of the quarterly and nine months ended December 31, 2022 financial results are available on Company's website at www.a2zgroup.co.in and also be accessed

on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For and on behalf of A2Z Infra Engineering Limited Sd/

Amit Mittal Managing Director & CEO



(Corporate Contracts Department) The Tata Power Company Limited, Smart Center of Procurement Excellence, 2nd Floor, Sahar Receiving Station, Near Hotel Leela. Sahar Airport Road Andheri (E), Mumbai 400 059, Maharashtra, India (Board Line: 022-67173917) CIN: L28920MH1919PLC000567

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

A) The Tata Power Company Limited invites tender from eligible vendors for the following tender packages (Two-part Bidding) in Mumbai.

1) Services for 110kV structures modification at Parel Receiving station.

For downloading the Tender documents (Including procedure to submit the bid), please visit Tender section on website https://www.tatapower.com. Interested bidders to submit Tender Fee. Authorization Letter and their Bids up to 15:00. Tuesday.

All future corrigendum's (if any), to the above tenders will be informed on Tender sectior on website https://www.tatapower.com only.



GREENPLY INDUSTRIES LIMITED

CIN: L20211AS1990PLC003484 Registered Office: Makum Road, P.O. Tinsukia, Assam-786125 Corporate Office: "Madgul Lounge", 23 Chetla Central Road, 5th & 6th Floor, Kolkata - 700 027

Phone: (033) 3051-5000, Fax: (033) 3051-5010, Email: investors@greenply.com, Website: www.greenply.com

NOTICE FOR FURNISHING PAN, **KYC DETAILS AND NOMINATION**

Notice is hereby given with respect to SEBI circular dated November 03. 2021 for updation/submission of PAN. KYC details and Nomination by the shareholders holding shares in Physical mode Shareholders of the Company, holding shares of the Company in Physical mode, are requested to submit their PAN, KYC details, Nomination etc. in FORM ISR-1 and FORM SH-13 respectively to the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company at the address mentioned below:

S. K. Infosolutions Pvt. Ltd

D/42, Katju Nagar Colony, Ground Floor,

Near South City Mall, PO & PS - Jadavpur, Kolkata - 700 032 Contact No.: 033-24120027 / 033-24120029

Email ID: contact@skcinfo.com / skcdilip@gmail.com

Copies of the above-mentioned forms can also be download from the website of the RTA i.e. http://www.skcinfo.com/notice.php and http://www.skinfo.in/notice.php

> For Greenply Industries Limited Sd/

Place : Kolkata Kaushal Kumar Agarwal Date: 14.02.2023 Company Secretary & Vice President-Legal

Place: Gurugram Date: February 14, 2023

DIN: 00058944

प्रिय श्रीमती / श्रीमान

यूको बैंक राजेंद्र प्लेस शाखा 30/29. पटेल नगर, नई दिल्ली-110 008

दिनांकितः 31.01.202

मंदर्भ: UCO/RP/2022-23/485 सरफॉएसि अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

।. उधारकर्ता मैसर्स श्रीति आनंद, प्रोपराइटर मैसर्स श्रियम ज्वैल्स के समस्त अन्य विधिक उत्तराधिकारीगण, उनमें निम्ननामित व्यक्ति सम्मिलित हैं श्री अनन्या प्रकाश 4. श्री श्रियम प्रकाश 2. श्री आनंद प्रकाश शर्मा पता : दुकान नं. 237, वेव सिल्वर टावर, सेक्टर 18, नोएडा, यू.पी. 201301 (यूनिट नंबर 37, द्वितीय तल)

अन्य पता यहां पर भी : दुकान नं. 134, वेव सिल्वर टॉवर, सेक्टर 18, नोएडा, यूपी 201301

117, कैलाश हिल्स, ईस्ट ऑफ कैलाश, दिल्ली—110065

 219, विनोबापुरी, भू तल (दाएं), लाजपत नगर—।।, नई दिल्ली 110024 द्वारा आनंद शर्मा, ओ—61, प्रथम तल, लाजपत नगर—।।, दिल्ली—110024

द्वारा आनंद शर्मा, सी-222, जी.एफ. लाजपत नगर-। नई दिल्ली-110024

विषयः 'वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (इसके बाद 'अधिनियम' संबोधित) की घारा 13(2) के अंतर्गत सूचना'। संदर्भ: 13(2) के अंतर्गत कर्जदार को भेजे गए नोटिस दिनांक 10.10.2022 का भी संदर्भ लें। ऋण खाता सं.: 10220610009932

अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयम 2002 के तहत युको बैंक के प्राधिकृत अधिकार्र होने के नाते, एतदद्वारा आपको, श्रीमती श्रीति आनंद के कानुनी उत्तराधिकारियों को निम्नलिखित सुचना जारी करते हैं:

मृतक श्रीमती श्रीति आनंद के अनुरोध पर, उन्हें बैंक द्वारा अपनी राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली शाखा के माध्यम से समय–समय पर बैंक के पक्ष में सुरक्षा हित बनाने वाली विभिन्न संपत्तियों के समक्ष वित्तीय सहायता के माध्यम से विभिन्न ऋण सुविधाएं प्रदान की गई थीं। आपके द्वारा निष्पादित उक्त क्रेडिट सुविधाओ और सुरक्षा समझौते(ओं) / दस्तावेज(दस्तावेजों) के प्रासंगिक विवरण क्रमशः चल-चलन की गिरवी को छोड़कर अनुसूची 'ए' और 'बी' में बताए गए हैं। आप उक्त समझौते(तों) / दस्तावेज(जों) के अनुसार उक्त वित्तीय सहायता के पुनर्भुगतान के लिए वचनबद्धता के साथ वित्तीय सहायता प्राप्त की है।

स्वर्गीय श्रीमती श्रीति आनंद ने बैंक के पक्ष में सुरक्षा हित सुजित करते हुए टाइटल डीड / पंजीकृत बंधक जमा करके बंधक भी बनाया। इस तरह के बंधक से संबंधित दस्तावेज भी अनुसूची 'बी' में बताए गए हैं। सुरक्षित परिसंपत्तियों के प्रासंगिक विवरण विशेष रूप से अनुसूची 'सी' में बताए गए हैं।

उधारकर्ता ने समय—समय पर शेष राशि और पुनरुद्धार पत्रों और अन्य दस्तावेजों की पृष्टि निष्पादित करके उक्त ऋण सुविधाओं के संबंध में देयता निर्वाह को भी स्वीकार किया। उपर्युक्त वित्तीय सहायता/ऋण सुविधाओं का परिचालन और संचालन अनियमित हो गया है और ऋण को **29.08.2022** के गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो मूल ऋण और उस पर ब्याज की अदायगी में आपके द्वारा की गई चूक परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत परिसंपत्ति वर्गीकरण से संबंधित निर्देशों / दिशानिर्देशों के अनुसार जारी किया गया है। बार-बार अनुरोध करने और नोटिस देने के बावजूद, उधारकर्ता उक्त देय राशि / बकाया देनदारियों को चुकाने में विफल रहा।

इसलिए, बैंक एतदद्वारा आपसे, उक्त 'अधिनियम' की धारा 13(2) के तहत स्वर्गीय श्रीमती श्रीति आनंद के कानूनी उत्तराधिकारियों से इस नोटिस को जार्र करके आह्वान करता है कि वे इस नोटिस के 60 दिनों के भीतर बैंक के प्रति अपनी देनदारियों का पर्ण रूप से निर्वहन करें। आपकी बकाया देनदारिय (कुल मिलाकर) बैंक को देय और बकाया दिनांक 10.10.2022 के अनुसर 30.04.2022 तक व्याज सहित र 13,82,674.59 (रुपए तेरह लाख बयासी हजार **छह सौ चौहत्तर और उनसठ पैसे मात्र)** है। आप, दिनांक 01.05.2022 से उपरोक्त राशि पर संविदात्मक दर पर आकस्मिक साथ भविष्य के ब्याज का भगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं।

यदि आप, श्रीमती श्रीति आनंद के कानूनी उत्तराधिकारी, बँक को उपरोक्त राशि दिनांक 10.10.2022 के अनुसार रु. 13,82,674.59 (रुपए तेरह लाख बयार्स हजार छह सौ चौहत्तर एवं उनसठ पैसे केवल) का 30.04.2022 तक नियत ब्याज सहित, 01.05.2022 से आगे के ब्याज और आंकिस्मिक व्यय, बताई गई लागत के साथ ऊपर दिए गए इस नोटिस के अनुसार 'अधिनियम' की धारा 13(2) के तहत भुगतान करने में विफल होते हैं, तो बैंक धारा 13 की उप–धा (4) के तहत और कथित 'अधिनियम' के अन्य लागू प्रावधानों के तहत दिए गए सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगा। .) आपको, श्रीमती श्रीति आनंद के कानूनी उत्तराधिकारियों को भी सूचित किया जाता है कि धारा 13 की उप–धारा 13 के संदर्भ में, आप इस नोटिस व

अनुसूची 'सी' में वर्णित कथित सुरक्षित परिसंपत्तियों को बैंक की लिखित सहमति प्राप्त किय बिना बिक्री, पट्टे के माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरि यह नोटिस, इस तरह के अन्य कार्रवाइयों या विधिक कार्यवाहियों प्रारंभ करने के बैंक के पूर्वाग्रह के बिना है, जैसा कि यह कानून के किसी भी अन्य ला

संपत्ति **का साम्पिक बंधक —** दुकान अधि क्षेत्र माप 12.74 वर्ग मीटर, यूनिट नंबर 37, द्वितीय तल, वेव सिल्वर टाउन, प्लॉट नंबर डी–6, सेक्टर 18, नोएडा, जिल गौतम बुद्ध नगर, यूपी जो सुश्री श्रीति आनंद पुत्री श्री अशोक कुमार के स्वामित्वधारण वाली उप—पट्टा विलेख संख्या 4554, बही संख्या ₁, खंड संख्या 601 पृष्ठ 143 से 174 दिनांक 15.05.2014 के अनुसार पंजीकृत है।

भापका विश्वासपा? प्राधिकत अधिकारी

प्रावधानों के तहत आवश्यक है।

<u>प्रपत्र सं. आईएनसी-26</u>

(कम्पनीज (संस्थापन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार) एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का स्थानांतरण करने हेतू समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेत् विज्ञापन

केंद्र सरकार

प्रादेशिक निदेशक, कार्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र के सामने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा कम्पनीज (संस्थापन) नियम 2014 के नियम 30 के उप नियम (5) के अनुच्छेद (अ) के मामले में

अंडव्हेन्ट बिल्डवेल प्राईवेट लिमिटेड, जिनका पंजीकृत कार्यालय 2030, पहली मंज़िल बाज़ार सिताराम, दिल्ली उत्तर, दिल्ली 110006 पर है, उनके मामले में ... **याचिकाकर्ता** एतदद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है की कंपनी की दिनांक 3 फरवरी 2023 को आयोजित असाधारण सामान्य सभा में पारित प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय का 'दिल्ली राज्य' से 'महाराष्ट्र राज्य' में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अनुसार स्थानांतरण करने हेतू कम्पनी के मेमोरेण्डम आफ असोसिएशन में परिवर्तन की पृष्टि की मांग करते हेतु केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का कंपनी का प्रस्ताव हैं।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण के कारण यदि किसी व्यक्ती के हित में बाधा होने का संभव हो तो, वह या तो एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निदेशक शिकायत पत्र भर दे या उनकी आपत्तियां, हित का स्वरुप तथा विरोध का आधार दर्शाने वाले शपथ पत्र के साथ, प्रादेशिक निदेशक उत्तरी क्षेत्र के बी-2 स्कंध, 2री मंज़िल, पर्यावरण भवन, जीसीओ काम्प्लेक्स, नई दिल्ली के पास इस सूचना के प्रकाशन से चौदह दिनों के भीतर व्यक्तिश: या पंजीकृत डाक से पहुँचाएं तथा उसकी एक प्रति याचिकाकर्ता कम्पनी को निम्न निर्देशित पते पर भेज दें

2030, पहली मंज़िल, बज़ार सिता राम, दिल्ली उत्तर, दिल्ली-110006

कृते औडव्हेन्ट बिल्डवेल प्राईवेट लिमिटेड स्वाक्षरी/-(प्रभाकर कक्कर)

निदेशक

डीआईएन : 00145435

दि. 14/02/2023 स्थान: मुंबई

BRISK SERVICES LIMITED

Regd. Off: SF-28, Devika Tower, 6, Nehru Place, New Delhi 110019 CIN: L74140DL1983PLC016646, Tel: +91-011-43675505; Email Id: brisk1983@gmail.com. Website: www.briskservices.co.in

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Members are hereby informed that pursuant to Section 108/110 and other applicable provisions if any, of the Companies Act, 2013, (the 'Act') read with Rule 20 & 22 and other applicable provisions, if any, of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force) ("the Rules") and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Secretarial Standard 2 on General Meetings ("the SS2") read with the General Circular Nos. 14/2020 dated 8th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 22/2020 dated 15th June, 2020, 33/2020 dated 28th September, 2020, 39/2020 dated 31st December, 2020, 10/2021 dated 23rd June, 2021, No. 20/2021 dated December 08, 2021 and No. 3/2022 dated May 05, 2022 ("General Circulars") issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and other applicable laws and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), approval of the members of Brisk Services Limited ("the Company") is being sought for the Voluntary Delisting o the Equity Shares of the Company from the Metropolitan Stock Exchange of India Limited ("MSEI") by way of Postal Ballot through Postal Ballot/Remote E-voting. The Notice of the Postal Ballot along with the Explanatory Statement thereto has been sent on February 14, 2023 to all the nembers whose names appear on the Register of member / List of Beneficial Owners as or February 11, 2023 through electronic mail to all those members whose email IDs are registered i the records of depository participants in compliance with the General Circulars, for seeking approval of the members of the Company through Postal Ballot/Remote E-voting, for the Specia Resolution for obtaining consent for voluntary delisting of equity shares of the Company from Metropolitan Stock Exchange of India Limited (MSEI) in compliance with the relevant provisions of Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended and the Companies Act, 2013 and rules made thereunder

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide e-voting facilities to its members. The Company is providing e-voting facilities to the Members of the Company holding shares either in physical or in dematerialized form as on the cut-off date to cast their vote electronically through e-voting services provided by NSDL. The manner of remote e-voting has been provided in detail in the Notice of the Postal Ballot.

Members are requested to note that the e-voting and voting through Postal Ballot will open o Wednesday, February 15, 2023 at 9.00 A.M and will close on Friday, March 17, 2023 at 5.00 P.M.

The Board of Directors has appointed M/s G Aakash & Associates, Practicing Company Secretaries (Membership No: A57213, COP: 21629) as the Scrutinizer for conducting the Posta Ballot / electronic voting in a fair and transparent manner. Members holding shares in physica mode are requested to furnish their email address and mobile number with Company's Registra and Share Transfer Agent ("RTA") and Members, who have not registered their email address so far, are requested to register their email address for receiving all communications from the Company electronically with RTA at email id: rdua@rcmcdelhi.com

Members who have not received the Postal Ballot Notice may apply to the Registrar to the Delisting offer, i.e. RCMC Share Registry Private Limited, B-25/1, Okhla Industrial Area, Phase II New Delhi -110020, or obtain a duplicate thereof. The Postal Ballot Notice is also available at Company's website www.briskservices.co.in and NSDL e-voting website https://www.evoting.nsdl.com

The voting rights of the Members shall be reckoned on the cut-off date i.e. February 11, 2023. A person who is not a Member as on cut-off date should treat this notice for information purpose

The scrutinizer will submit his report to the Company within one working day from the last date of e-voting and the result of the Postal Ballot will be announced accordingly. The results would be

communicated to the stock exchange and shall also be displayed on the Company's website i.e. In case of any query / grievances, the members may contact Mr. Sipendra Kumar, Director of the Company at +91-011-43675505 or email: brisk1983@gmail.com. For any queries or issues regarding e-voting you may contact NSDL: Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National

Securities Depository Limited Trade World 'A' Wing 4th Floor Kamala Mills Compound Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013, at the designated email id evoting@nsdl.co.in. For Brisk Services Limite Sd/-(SIPENDRA KUMAR)

Place : New Delhi Date : February 14, 2023 Director DIN: 06909279

EMMSON:

एमसंस इंटरनेशनल लिमिटेड

सीआईएन नं: L74899DL1993PLC053060 **पंजीकृत कार्यालयः** पलैट नं. 301, प्लॉट नं. 12, जमरुद्धपुर, कम्युनिटी सेन्टर, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली—110048 **फोन गं.** 91—117—29247721—25, **फैक्स**: 91—11—29247730

वेबसाइट: www.emmsons.com. ई-मेल: corporate@ 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार

(राशि लाखों में ईपीएस को छोड़कर क्र. **नौ माह समाप्त** विवरण 31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.03.2022 1 प्रचालनों से कुल आय 2 अवधि के लिए लाम/(हानि) (असाधारण मदों और कर से पूर्व) (4.404.86)(4.415.59) (3,729.78) (13,174.18) (11.151.69) (14.832.14 3 कर पूर्व अवधि के लिए लाभ / (हानि) (4.404.86) (4.415.59 (3.729.78) (13,174,18 (11.151.69 (14.832.1 (असाधारण मदों के बाद) 4 कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (4.404.86) (4.415.59 (3,729,78) (13,174.18) (11.151.69) (14,832.14 (असाधारण मदों के बाद) (13,167.59) 5 कुल समग्र आय (4,402.85) (4,413.20) (3,728.10)(11,148.17) (14,821.63 हि इिक्वटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10 / – प्रत्येक) 1,199.60 1,199.6 1,199.60 1,199.60 1,199.60 1,199.60 पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर आरक्षित 198,519.27 7 प्रति शेयर अर्जन रु. 10 /- प्रत्येक (1) बेसिक (रु.) (31.09)(109.82) (123.64 (36.72)(36.81)(92.96)(36.81)(31.09)(109.82)(92.96)(123.64 (36.72)

31 दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार (राशि लाखों में ईपीएस को छोड़क

豖.	_		तिमाही समाप्त	1	नौ माह	समाप्त	वर्ष समाप्त
सं.	विवरण	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022
`''		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1	कुल आय	-	_	-	-	-	_
2	अवधि के लिए लाभ / (हानि) (असाधारण मदों और कर से पूर्व)	(4,404.86)	(4,415.59)	(3,729.78)	(13,174.18)	(11,151.69)	(14,832.14)
3	कर पूर्व अवधि के लिए लाभ / (हानि) (असाधारण मदों के बाद)	(4,404.86)	(4,415.59)	(3,729.78)	(13,174.18)	(11,151.69)	(14,832.14)
4	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	(4,404.86)	(4,415.59)	(3,729.78)	(13,174.18)	(11,151.69)	(14,832.14)
5	कुल समग्र आय	(4,402.85)	(4,413.20)	(3,728.10)	(13,167.59)	(11,148.17)	(14,821.63)
6	इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10/- प्रत्येक)	1,199.60	1,199.60	1,199.60	1,199.60	1,199.60	1,199.60
	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर आरक्षित	-	-	_	-	_	(221,580.76)
7	प्रति शेयर अर्जन रु. 10 /— प्रत्येक (1) बेसिक (रु.) (2) डायल्यूटेड (रु.)	(36.72) (36.72)	(36.81) (36.81)	(31.09) (31.09)	(109.82) (109.82)	(92.96) (92.96)	(123.64) (123.64)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 14 फरवरी 2023

- उपर्युक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा सीमित समीक्षा के तहत थे, लेखापरीक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई और निदेशक मंडल द्वारा 14 फरवरी, 2023 को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किए गए। सांविधिक लेखापरीक्षक की समीक्षा रिपोर्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज की जा रही है।
- 2. ऊपर सेबी (सुचीबृद्ध और अन्य प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली, 2015 के नियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में पेश किए गए 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए एकल/समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। इन वित्तीय परिणामों का विस्तृत पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है। बोर्ड के आदेशानुसा हिते एमसंस इंटरनेशनल लिमिटेड

हस्ता./-अनिल कुमार मोंगा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

MAWANA SUGARS LIMITED

CIN: L74100DL1961PLC003413 Registered Office: 5th Floor, Kirti Mahal, 19 Rajendra Place, New Delhi-110 125

Tel.: 91-11-25739103, Fax: 91-11-25743659, Email: corporate@mawanasugars.com, Website: www.mawanasugars.com



											(Rs. in millior	n except earn	ing per share
				Stand	lalone			Consolidated					
S.		Q	uarter Ended		Nine Mon	ths Ended	Year Ended	Quarter Ended			Nine Months Ended		Year Ende
No.	Particulars		Unaudited		Una	udited	Audited		Unaudited		Unaı	ıdited	Audited
	Farticulars	December 31, 2022	September 30, 2022	December 31, 2021	December 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2022	December 31, 2022	September 30, 2022	December 31, 2021	December 31, 2022	December 31, 2021	March 31, 2022
1	Total Income from Operations	4,829.39	3,421.74	4,883.07	11,340.76	11,895.34	14,859.63	4,825.72	3,420.97	4,881.00	11,336.27	11,857.47	14,817.76
2	Profit / (Loss) for the period/year before tax and exceptional items)	83.23	(420.96)	202.96	(470.05)	25.69	501.16	71.18	(429.61)	206.12	(501.10)	(19.02)	444.51
3	Profit / (Loss) for the period/year before tax (after exceptional items)	83.23	(420.96)	202.96	(479.65)	(0.54)	448.37	71.80	(428.88)	206.12	(508.95)	(45.25)	379.04
4	Profit / (Loss) for the period/year after tax (after exceptional items)	64.50	(316.31)	148.69	(360.77)	(4.28)	330.83	53.07	(324.23)	151.85	(390.07)	(48.99)	261.50
5	Total Comprehensive Income/(loss) for the period/year {Comprising profit/(loss) for the period/year and Other Comprehensive Income/ (loss) for the period/year (after tax)}	64.50	(316.31)	148.69	(360.77)	(4.28)	332.25	53.07	(324.23)	151.85	(390.07)	(48.99)	263.13
6	Equity Share Capital	391.17	391.17	391.17	391.17	391.17	391.17	391.16	391.16	391.16	391.16	391.16	391.16
7	Other Equity as per balance sheet						3,742.55						3,451.48
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) a) Basic/Diluted	1.65	(8.09)	3.80	(9.22)	(0.11)	8.46	1.36	(8.29)	3.88	(9.97)	(1.25)	6.69

Statement of Standalone and Consolidated Unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2022

- The auditors have conducted limited review of the standalone and consolidated financial results for the guarter and nine months ended December 31, 2022. These unaudited financial results have been recommended by the
- Audit Committee at its meeting held on February 14, 2023 and approved by the Board of Directors at its meeting held on February 14, 2023. The above is the extract of the detailed format of financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2022, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2022 are available on the stock exchange websites. (www.nseindia.com www.bseindia.com) and on the Company's website
- The results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ("IndAS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder

For Mawana Sugars Limited Sd/

MPS INFOTECNICS LIMITED

Regd. Off.703, Arunachal Building,19 Barakhamba Road, New Delhi-110001 CIN:L30007DL1989PLC131190, Ph: 011-43571044, Fax:011-43571047; Email: info@mpsinfotec.com

Extract of Unaudited Financial Results (Consolidated) for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2022

S. No.	Particulars	ď	Quarter Ended			Nine Months Ended		
		31-Dec-22 Un-audited	30-Sep-22 Un-audited	31-Dec-21 Un-audited	31-Dec-22 Un-audited		31-Mar-22 Audited	
1	Total income from operations (net)	12.77	11.75	93.67	39.29	115.56	133.96	
2	Net Profit/(Loss) from ordinary activities before tax	(119.75)	(124.37)	(54.49)	(373.47)	(321.58)	(454.98)	
3	Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	(104.18)	(108.79)	(43.30)	(326.75)	(288.01)	(412.14)	
4	Total Comprehensive Income for the Period (Net of Taxes)	(89.86)	(16.36)	(42.86)	(250.10)	(286.71)	(381.19)	
5	Equity Share Capital (Face Value Rs.1/- per share)	37,744.37	37,744.37	37,744.37	37,744.37	37,744.37	37,744.37	
6	Reserves excluding Revaluation reserves (i.e. Other equity)						6,100.68	
7	Earning Per Share (Basic)	(0.002)	(0.000)	(0.001)	(0.007)	(0.008)	(0.010)	
8	Earning Per Share (Diluted)	(0.002)	(0.000)	(0.001)	(0.007)	(0.008)	(0.010)	

Place: New Delhi Date: 13/02/2023

V

Vipul

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's websit www.mpsinfotec.com

The key standalone financial information are as under

Particulars	G	Quarter Ende	d	Nine Mont	Financial Year Ended	
	31-Dec-22 Un-audited	30-Sep-22 Un-audited				
Total revenue from operations	12.77		93.67	39.29	115.56	133.96
Profit before tax	(119.75)	(124.37)	(54.49)	(373.47)	(321.58)	(454.98)
Profit after tax	(104.18)	(108.79)	(43.30)	(326.75)	(288.01)	(412.14)

3. The above results have been reviewed and recommended to the Board of Directors by the Audit Committee and subsequent approved by the Board of Directors at its meeting held on February 13, 2023. For MPS Infotecnics Limited

Mr. Peeyush Kumar Aggarwa

Managing Director DIN:00090423

विपुल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : यूनिट सं. 201, सी-50, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 कॉरपोरेट कार्यालयः विपुल टेकस्क्वायर, गॉल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-43, गुड़गाँव-122009

CIN No.: L65923DL2002PLC167607, दूरभाष सं.: 0124-4065500 वेबसाइटः www.vipulgroup.in

3	। दिसम्बर, 2021 को समाप्त तृतीय	तिमाही एवं व	नौ महीने के ी	लेए एकल अ	नांकेक्षित वित्त	ीय परिणामों	का सारांश
					(रु. लार	ख में प्रति शेयर	अर्जन रहित)
क्र. सं.	विवरण		समाप्त तिमाही व	र्क लिए	समाप्त नौ	31 .03 .2022	
सं.							को समाप्त
		31.12.2022 अलेखा परीक्षित		31 .12 .2021 अलेखा परीक्षित	31 .12 .2022 अलेखा परीक्षित	31 .12 .2021 अलेखा परीक्षित	वर्ष हेतु लेखा परीक्षित
1	परिचालन से कुल आय	759,20	1,444.65	7,606.46	3,635.42	10,818.34	13,158.05
2	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट						
	तथा/अथवा असाधारण मदों से पहले)	(1,221,19)	(907,87)	(48.71)	(3,453.65)	(2,837.48)	(3,491.51)
3	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
	(विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	(1,221,19)	(907.87)	(48.71)	(12,886.80)	(2,837.48)	(3,491.51)
4	The state of the s						
l	(विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	(1,221.19)	(907.87)	(48.71)	(12,886.80)	(2,131.94)	
5		1,199.84	1,199.84	1,199.84	1,199.84	1,199.84	1,199.84
6	1 11						
	(करोपरांत) तथा अन्य परिपूर्ण आय (करोपरांत)	(1 001 10)	(007.07)	(40.74)	(40 000 00)	(0.101.04)	(0.700.00)
_	के लिए लाभ/(हानि) सम्मिलित]	(1,221.19)	(907.87)	(48.71)	(12,886.80)	(2,131.94)	(2,736.86)
7	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
	(जारी एवं बंद परिचालन के लिए) - बेसिक	(1.02)	(0.76)	(0.04)	(10.74)	(1.78)	(2.32)
l	- बासक - डाइलुटेड	(1.02)	(0.76)	(0.04)	(10.74)	(1.78)	(2.32)
	31 दिसम्बर, 2022 को समाप्त व						(2.52)
-1	परिचालन से कुल आय	860.89	4,865,36	7,828,23	7.304.72	11,611,39	14,776.19
		60,000	4,000,30	1,020.23	7,304.72	11,011,39	14,776.19
2	अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मदों से पहले)	(1,393,35)	2,750,64	(244,25)	(712,81)	(0.404.64)	(4,883,47)
3		(1,080,05)	2,750.64	(244.25)	(/12.01)	(0,404,04)	(4,000,47)
0	(विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	(1,393,35)	2,750,64	(244,25)	(10,145,96)	(3.484.64)	(4,888,38)
4	करोपरांत अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि)	(1,000,000)	2,700,04	(277,20)	(10,140,00)	(5,707,04)	(,000,00)
1 '	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	1		I .		1

डाइलूटेड (1.16)1.56 (0.16)(9.20) (2.32)(3.49)टिप्पणी : ऊपर उल्लिखित विवरण सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं अन्य आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन, 2015 ("सूचीकरण विनियमन") के विनियमन 33 के अधीन बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सबेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास दायर 31 दिसम्बर, 2022 को समाप्त तृतीय तिमाही तथा नौ महीने के एकल तथा समेकित अनांकेश्वित विस्तृत वित्तीय परिणामों का सारांश है। 31 दिसम्बर, 2022 को समाप्त वृतीय विमाही एवं नौ महीने के एकल एवं समेकित अनांकेक्षित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों यानी www.bseindia.com तथा www.nseindia.com तथा कंपनी की

1 867 42

1199.84

1.867.42

1199.84

(190.11)

(11 041 34)

1199.84

(11.041.34)

(2.779.15) (4.182.65)

(2.779.15) (4.133.54)

1199.84

(1.391.97)

1199.84

(1.391.97)

जनाकात्रता त्याचा मार्गाला को तर्मुण शरिल एट्टा एट्टाचिका को चयताहुटा योगा **www.bselitua.com** येवा **क्रमाला को** चेबताहुट **www.vipulgroup.in** पर उपलब्ध है। लेखा परीक्षक कमिटी द्वारा 31 दिसम्बर, 2022 को समाप्त तृतीय तिमाही तथा नौ महीने के एकल एवं समेकित अनांकक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा की गई है एवं उनकी सिफारिशों पर 14 फरवरी, 2023 को आयोजित निदेशक मंडल द्वारा अपनी संबद्ध बैठक में उसे अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण विनियमनों के विनियमन 33 की आवश्यकताओं के अनुसार संविधिक लेखा परीक्षक ने 31 दिसम्बर, 2022 को समाप्त तृतीय तिमाही एवं नौ महीने के एकल एवं समेकित अनांकेक्षित वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा की गई है तथा बोर्ड द्वारा सीमित समीक्षा रिपोर्ट को अनमोदित कर

उपरोक्त परिणामों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अधीन निर्धारित आईएनडी एएस में उल्लेखित अनुमोदित तथा परिमापन सिद्धांतों के साथ प्रतिद

उसके अधीन जारी प्रासंगिक नियमों तथा भारत में साधारण तौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है। संबंधित परिणाम कंपनी की वेबसाइट यानी **www.vipulgroup.in** तथाँ बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों

यानी www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर उपलब्ध है। बोर्ड के लिए तथा उनकी ओर से विपुल लिमिटेर

हस्ता/ तारीख : 14 फरवरी, 2023 पुनीत बेरीवाला प्रबंधक निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ReLI∧NCE

जमा धरोहर राशि (ईएमडी) निम्नलिखित है :

(विभिष्ट तथा/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)

इक्विटा शयर पूजा अवधि के लिए कुल परिपूर्ण आय [अवधि (करोपरांत) तथा अन्य परिपूर्ण आय (करोपरांत) के लिए लाभ/(हानि) सम्मिलित] प्रति शेयर उपार्जन (रु. 1/- प्रत्येक)

(जारी एवं बंद परिचालन के लिए)

रिलायंस एसेट रिकंस्टक्शन कम्पनी लि. 11वीं मंजिल, उत्तरी साइड, ओर-टेक पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पर्व),

मुम्बई-400063 प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री हेतु सूचना [नियम 8(6) के साथ पठित नियम 6(2) देखें] प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियो

एवं प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना . एतद्वारा जनसामान्य को एवं विशेष रूप से कर्जदार(रों) और जमानती(यों) को सचना दी जाती है कि प्रतिभत लेनदार के पास बंधक/दष्टिबंधव निम्नलिखित अचल/चल सम्पत्तियों, जिसका भौतिक कब्जा प्रतिभृत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया।

कि, रेलिगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने दिनांक 29.03.2019 को एसाइनमेंट अनुबन्ध के माध्यम से अपने अधिकारों, स्वामित्व तर ब्याज एवं निहित प्रतिभृतियों सहित आपके ऋण खाते की वित्तीय आस्तियों/कर्जों को **आरएआरसी** 059 (**आरएचडीएफसीएल एचएल**) **ट्रस्ट** के ट्रस्टी रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रवशन कम्पनी लि. (आरएआरसी) के पक्ष में एसाइन कर दिया है। कथित एसाइनमेंट के कारण, हम सम्पूर्ण अनुबन्धित बकायो

की वसुली के लिए कानून तौर पर पात्र एवं आपके प्रतिभृत लेनदार हो गये हैं। अतः रिलायंस एसेट रिकंस्टक्शन कम्पनी लि. के अधोहस्ताक्षरी अधिकृत प्राधिकारी आपको 15 दिन की सचना देते हैं कि नीचे उल्लिखित बंधक सम्पत्तिय धारा 13(2) के तहत माँग सचना में उल्लिखित राशि एवं भावी ब्याज तथा लागत जो **आरएआरसी ०५९ (आरएचडीएफसीएल एचएल) टस्ट** के ट्रस्टी **रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लि. (आरएआरसी)** के पक्ष में बकाया बकाया है, की उल्लिखित जमानतियों/बंधककर्ताओं से वसुली वे लिए 27.03.2023 को ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है **यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है''** के आधार पर की जायेगी। आरक्षित मल्य तथा

		•	
बंधक	सम्पत्ति	का	विवरण

लाट	केजदार का नाम, सम्पत्ति का विवरण, मार्ग सूचना तथा कब्जा करन का तिथ	आराक्षत मूल्य	इएमडा
नं.			
1.	कवलीन कौर खुराना पुत्री कमलदीप सिंह खुराना और गगन दीप जलवाल पुत्र कुलदीप सिंह दोनों निवासी डब्ल्यूजेड-	₹.	₹.
	12ए प्लॉट नंबर 114 शाम नगर एक्सटेंशन विष्णु गार्डन, दिल्ली-110018	35,06,490/-	3,50,649/-
	साथ ही: संपत्ति संख्या 18/93- बी, गली नंबर 2, पूर्वी मोती बाग, रोहिल्ला, दिल्ली -110007 संपत्तिः पहली मंजिल		
	और दूसरी मंजिल बिना छत के अधिकार के, संपत्ति संख्या 18/93-बी के पश्चिमी भाग के हिस्से में, गली नंबर 2,		
	माप क्षेत्र 46 वर्ग मीटर, पूर्वी मोती बाग, रोहिल्ला, दिल्ली -110007 में स्थित भूमि में अविभाजित आनुपातिक हिस्से		
	के साथ		
	मांग सूचनाः रु. 43,76,356.50/- (रुपये तैतालीस लाख छिहत्तर हजार तीन सौ छप्पन और पचास पैसे मात्र)		
	13.11.2018 तक तथा भावी ब्याज और लागत		
	कहते की ताग्रेखः 15-05-2019		

सम्पत्ति का निरीक्षण : 23.03.2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 02.00 बजे अप. संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि : 24/03/2023 को 3.00 बजे अप. तक ई-नीलामी की तिथि : 27/03/2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. तक 5 मिनट प्रत्येक के विस्तार सहित

बिकी के नियम एवं णर्ते : 1. सम्पत्ति की बिकी आरक्षित मल्य से नीचे नहीं की जाएगी तथा बिक्री प्रतिभृत क्रेडीटर के रूप में आरएआरसी की पुष्टि के अधी

होगी। 2. ई-नीलामी मै. सी1 इंडिया प्रा.लि. द्वारा ऑनलाइन प्लॉंट नं. 68 गुरुग्राम, हरियाणा, पिन कोड-12203 पर आयोजित होगी। 3. ई-नीलामी में भाग लेने रे पूर्व इच्छुक बोलीदाता के पास ई-मेल आईडी हो तथा उन्हें पोर्टल www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा तथा मै. सी1 इंडिया प्रा. लि . भे यजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा। 4. संभावित बोलीदाता **मै. सी.। इंडिया प्रा.लि. (सम्पर्क व्यक्ति विनोद चौहान, मोबाइल नं.** +919813887931 Delhi@c1india.com अथवा Support@bankeauctions.com (हेल्प लाइन नं. 7291981124, 25, 26) से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप कर सकते हैं। 5. धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान चालू खाता सं. 6742557088, बैंक का नाम: इण्डियन बैंक शाखा : शांताकुज, वेस्ट ब्रांच मुम्बई, 400054 लाभभोगी का नामः **आरएआरसी ०५९ टस्ट (आरएचडीएफसीएल एचएल) टस्ट**, आईएफएससी कोडः IDIB000S010 में आरटीजीएस/एनईएफटी निधि अंतर द्वारा किया जाएगा। कृपया ध्यान रहे कि ईएमडी के लिए चेक/डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा। 6. आरक्षित मूल्य से नीचे एवं/अथवा ईएमडी के बिना बोर्ल स्वीकार नहीं की जाएगी। बोलीदाता रु. 5000/- प्रति लॉट के गुणक में अपनी बोली राशि में सुधार कर सकते हैं। 7. सफल बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किए जाने के तत्काल बाद 25% बोली राशि/बिक्री मूल्य (धरोहर राशि सहित) का भुगतान करना होगा। सफल बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किए जाने की तिथि के 15 दिनों के भीतर शेष 75% बोली/ बिक्री राशि का भुगतान करना होगा। 8. यदि सफल बोलीदाता उक्त रूप में बोली राशि का भुगतान नहीं करते हैं, ईएमडी सहित सभी जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। ९ असफल बोलीदाता की ईएमड़ी ई-नीलामी बिकी प्रक्रिया की समाप्ति के बाद बिना किसी ब्याज के सात दिनों के भीत वापस लौटा दी जाएगी। 10. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया विवरण उनकी सर्वोत्तम जानकारी, विश्वास तथा रेकाईस में सही हैं। प्राधिकृत अधिकारी किसी गलत गलत विवरण या त्रुटियों आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। 11. अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी को बिना किसी पूर्व सूचना के अथवा बिना कोई कारण बताए किर्स भी बोली को स्वीकार या निरस्त करने या बिक्री को स्थगित/ निलंबित/ रह करने अथवा बिक्री के किसी भी नियमों एवं शर्तों में संशोधन करने का अधिकार है। 12 संपत्ति पर चार्ज/अधिभारों/विधिक बकार्यों के संदर्भ में बोलीदाता स्वयं गोपनीय तरीके से जांच कर लें तथा अपनी बोली जमा करने से पूर्व संपत्ति के टाईटल, विस्तार अथवा गुणवत्ता के विषय में स्वयं को संतुष्ट कर लें। ऑन लाइन बोली जमा कर देने के बाद संपत्ति पर चार्जेज, अधिभारों तथा किसी अन्य मामले आदि के लिए किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किए जाएंगे। 13. उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में इस सूचना की तिथि तक सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। 14. स्टाम्प ड्यूटी/ पंजीकरण शुल्क सहित संपत्ति की बिक्री पर किसी एरिअर्स, बकाए, करों, वैट, टीडीएस, जीएसटी, चार्जेज, सांविधिक या अन्य का वह केवल केता को ही करना होगा।

किसी अन्य सुचना के लिए 18001039711/18602664111/18003099711 से सम्पर्क किया जा सकता है।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2), 8(6) एवं 9(1) के तहत 30 दिवसीय विधिक सूचना

रतद्वारा कर्जदार∕सह–कर्जदारों∕जमानतियों को अद्यतन ब्याज एवं अनुषंगी व्ययों सहित ई-नीलामी के पूर्व उपर्युक्त सम्पूर्ण राशि अदा करने के लिए अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल रहने पर उपर्यक्त बंधक सम्पनी की ई-नीलामी की जाएगी और शेष बकाया. यदि कोई हो, ब्याज/लागत सहित वसल किया जायेगा। नीलामी के लिए निर्धारित तिथि पर नीलामी बिक्री में कोई बोली प्राप्त नहीं होने की स्थित में, प्रतिभृत लेनदार किसी भी संभावित खरीदार को ऊपर निर्धारित आरक्षित मृल्य पर या उससे अधिक निर्ज संधि के माध्यम से इस संपत्ति को बेचने के लिए स्वतंत्र होगा।

स्थान : दिल्ली तिथि : 15.02.2023 अधिकत प्राधिकारी, रिलायंस एसेट रीकंस्टक्शन के, लिमिटेड नोट : सरफैसी अधिनयम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना के निर्ममन के पश्चात अदा की गयी राशि, यदि कोई हो, वसुली.समायोजन के समय बकावा देयताएं निर्धारित करने के लिए परिगणित की जाएंगी।

Place : New Delhi Date: February 14, 2023

Dharam Pal Sharma (Whole Time Director DIN No. 07259344